



PRIYA KAUSHIK & CO.
Chartered Accountants

परीक्षण विवरण

वर्ष 2019-20

कार्यालय नगर परिषद हरपालपुर जिला छतरपुर म. प्र.

क्र.	व्योरे	टिप्पणी
		राजस्व की लेखा परीक्षा
1	विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्ति की जाँच	हमारे द्वारा विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्ति की जाँच की गई है जिसका विवरण हमारे द्वारा प्रस्तुत आय व्यय पत्रक में किया गया है।
2	रेवेन्यू रिसिप्ट को रिसिप्ट बुक से जाँचना एवं जाँच करना की जो पैसा प्राप्त हुआ है वह निर्धारित बैंक में जमा किया गया है	हमारे द्वारा रेवेन्यू रिसिप्ट बुक में जाँचा गया एवं देखा गया की जो पैसा प्राप्त हुआ है वह निर्धारित बैंक में जमा किया गया है।
3	ऐसे मामले जहाँ नगदी जमा करने में 02 दिन से अधिक का समय लगा	ऐसे मामले विवरणी (J) में दर्शाया गया है।
4	रोकड़ वही में प्रविष्टियों की जाँच।	हमारे द्वारा कैथिर कैषबुक एवं लेखापाल कैषबुक में प्रविष्टियों की जाँच की गई। लेखापाल कैषबुक की जाँच के दौरान हमें कुछ अंक गणितीय त्रुटियाँ मिली, जिसे हमारे द्वारा आय-व्यय पत्रक में सही कर लिया गया एवं लेखापाल को कैषबुक में सुधार कराया गया है।
5	मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति	हमने लेखापाल से इस पद मुद्दे पर चर्चा की लेखापाल द्वारा हमें सूचित किया की हमारे द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचित किया कि हमारे द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त कार्य एवं बसूली की जाती है।
6	एफ.डी. आर. पर ब्याज की प्राप्ति की जाँच एवं उसका रोकड़ वही में लेखांकन	हमारे द्वारा एफ. डी. आर. एवं उन पर ब्याज की जानकारी मांगी गई परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष के दौरान कोई भी एफ.डी. आर. नहीं किया गया।
		व्यय की लेखा परीक्षा
1	सभी योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्ययों की जाँच	लेखापाल द्वारा सभी योजनाओं पर किये गए व्ययों की जानकारी दी गई जिन्हे जाँच के दौरान सही पाया गया यद्यपि जाँच में पाया गया कि लेखापाल द्वारा प्रथक प्रथक योजनावार व्ययों का संधारण नहीं किया गया।
2	रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ एवं उनका प्रासंगिक वाउचर से जाँच।	हमने रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ एवं प्रासंगिक वाउचरों की जाँच की जाँच के दौरान लगभग सभी चीजे सही पाई गई।
3	रोकड़ वही में मासिक बैलेंस की जाँच।	हमने रोकड़ वही की मासिक शेष की जाँच की जो की बैंक खातों के अनुसार नहीं पाई गई।
4	विशेष योजनाओं में किये गए व्ययों को उस योजना के अंतर्गत मिली राशि के अनुरूप होने की जाँच	हमारे द्वारा स्कीम वाइस सारे व्ययों की जाँच की गई और पाया गया की व्यय कोष आबंटन तक ही सीमित और जो प्रकरण के निर्देशों के विरुद्ध किए हैं उनका विवरण Annx A में दिया है।
5	व्ययों का भारत सरकार/राज्य सरकार अनुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होने की जाँच।	यहाँ समस्त व्यय का भारत सरकार/राज्य सरकार अनुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किये गए।
6	फाइनेंसियल प्राप्टी की जाँच। सारे व्यय सक्षम वित्तीय एवं प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा उनकी सीमा में स्वीकृत किये जाने के उपरांत किये गए हों।	हमें सारी फाइल वित्तीय वर्ष 2019-20 की दी गई। सारे व्यय सक्षम वित्तीय एवं प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उनकी सीमा में स्वीकृत किये जाने के उपरांत ही किये गए हमें वित्त वर्ष 19-20 में जारी किए गए टेंडर की फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए उस पर राय देना संभव नहीं है।
7	वे सभी मामले जहाँ पर उचित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।	सभी मामलों को उचित स्वीकृति प्राप्त हुई।

HIG- 510, BDA COMPLEX, 7 NO. STOP, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL

Mb. No. 9981502022, 9893339515

Email Id:- kaushikprateekca@gmail.com



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर



PRIYA KAUSHIK & CO.

Chartered Accountants

8	योजना एवं परियोजना अनुसार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जाँच । एवं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की योजना एवं परियोजना के अनुसार आय एवं व्यय से मिला करना एवं अचल संपत्ति का सृजन	उपयंत्री लोक निर्माण विभाग नगर परिषद पेलर के द्वारा प्रस्तुत अवलेख अनुसार शासन की योजनाओं के UC उपयोगिता प्रमाण निर्धारित समय सीमा में नहीं भेजा जाना पाया गया। UC रजिस्टर का संधारण नहीं है
बुक कीपिंग की लेखा परीक्षा		
1	सभी खाते वही एवं स्टोर की जाँच ।	हमने कैशियर कैशबुक , लेखापाल कैशबुक, वाउचर, प्रापटी, टैक्स रजिस्टर, दुकान किराया रजिस्टर और स्टॉर्स रजिस्ट्रों की जांच की, हमें उसमें जो भी विसंगतियाँ प्राप्त हुई। जिन्हें साल के अंत में सुधार लिया गया।
2	सभी खाते वही एवं स्टॉर्स लेखा नियमों के अनुरूप बनाए गए होने की जाँच ।	सभी खाते वही एवं स्टॉर्स लेखा नियमों के अनुरूप बनाए गए।
3	एडवांस रजिस्टर की जाँच । एडवांस की शर्तों के अनुसार समय से खातों में करना एवं उनकी वसूली की जाँच ।	वर्ष 2019-20 में निकाय द्वारा अग्रिम ऋण दिया गया। अग्रिम ऋण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है
4	बैंक रिकन्सिलेशन की जाँच ।	हमारे द्वारा बी. आर. एस. की मांग की गई, इस सन्दर्भ में लेखापाल द्वारा बताया गया की उनके द्वारा बी. आर. एस नहीं बनाए गए।
5	ग्रांट रजिस्टर की सभी प्रविष्टियों की जाँच एवं उनकी प्राप्ति एवं भुगतान का रोकड़ बही में प्रविष्टियों से मिलान।	लेखापाल द्वारा ग्रांट रजिस्टर बनाया गया है, जिससे सभी ग्रांट की राशि सही तरीके से अलग अलग मद में प्रस्तुत की गयी है।
6	अचल संपत्ति के रजिस्टर का अन्य रिकार्ड्स से मिलान।	अधिकारियों को चाहिए की सारी अचल संपत्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन अचल संपत्ति रजिस्टर बनाया जाय एवं आगामी सम परीक्षा में उपलब्ध कराया जाये।
7	परियोजना अनुसार भुगतान एवं प्राप्ति का मिलान।	हमारे द्वारा परियोजना अनुसार भुगतान एवं प्राप्ति का मिलान किया गया जिसमें समस्त प्राप्ति एवं भुगतान शासन के नियमों के अनुसार ही किये गये।
निविदाएं / बोली की लेखा परीक्षा।		
1	यू. एल. बी. द्वारा आमंत्रित सभी निविदा/बोली की जाँच ।	यू. एल. बी. द्वारा आमंत्रित सभी निविदा /बोली की टेंडर फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई।
2	सभी निविदा बोलियों में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रियाओं का पालन होने की जाँच ।	निविदा फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई।
3	निर्माण एवं रखरखाव की अवधि में सभी निविदा शुल्क /बिड प्रोसेसिंग शुल्क /परफॉर्मेंस गारंटी की प्राप्ति की जाँच ।	निविदा फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई।
4	ऐसे मामले जहाँ पर बैंक गारंटी, बिड प्रोसेसिंग शुल्क /परफॉर्मेंस गारंटी एवज में प्राप्त हुई हो, उनको जारी किये गये बैंक द्वारा सत्यापन।	हमने लेखापाल के साथ इस मामले पर चर्चा की है और लेखापाल ने हमें बताया की वर्तमान में कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाती है।
5	बैंक गारंटी की शर्तों की जाँच एवं ऐसे बैंक गारंटी जो यू. एल. बी. के हित में न हो उनका उल्लेख	लागू नहीं ।
6	बैंक गारंटी की एक्सटेंशन की जाँच ।	लागू नहीं ।
अनुदान और ऋण की लेखा परीक्षा		
1	केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जाँच ।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई है उसे उस मद में उपयोग किया गया है क्योंकि ग्रांट रजिस्टर संधारण नहीं किया गया इसलिए हमें पूर्ण रूप से बताना कि ग्रांट का उपयोग उसी मद में किया गया है यह बताना संभव नहीं है ।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जाँच ।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की राज्य सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई है उसे उस मद में उपयोग किया गया है। क्योंकि ग्रांट रजिस्टर संधारण नहीं किया गया इसलिए हमें पूर्ण रूप से बताना कि ग्रांट का उपयोग उसी मद में किया गया है यह बताना संभव नहीं है ।
3	फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदान किये गये ऋण एवं उनकी उपयोगिता की जाँच। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रेवेन्यू मैकेनिज्म पर टिप्पणी एवं उस फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू उत्पन्न ना होने के	लागू नहीं ।

HIG- 510, BDA COMPLEX, 7 NO. STOP, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL

Mb. No. 9981502022, 9893339515

Email Id:- kaushikprateekca@gmail.com



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर



PRIYA KAUSHIK & CO.

Chartered Accountants

	संभावित कारणों पर टिप्पणी।	
4	कैपिटल रिसिप्ट्स / ग्रांट्स सामान्य खर्चों के लिये प्राप्त लोन के पैसों में डायवर्सन के मामलों की जांच।	ऑडिट के दौरान कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया।
F	अनुदान और ऋण की लेखापाल	
1	केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जांच।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई है उसे उस मद में उपयोग किया गया है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जांच।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की राज्य सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई उसे उस मद में उपयोग किया गया है।
3	फिजिकल के लिए प्रदान किये गये ऋण एवं उनकी उपयोगिता की जांच। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रेवेन्यू मेकेनिज्म पर टिप्पणी एवं उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू उत्पन्न ना होने के संभावित कारणों पर टिप्पणी।	लागू नहीं।
4	कैपिटल रिसिप्ट्स / ग्रांट्स सामान्य खर्चों के लिये प्राप्त लोन के पैसों में डायवर्सन के मामलों की जांच।	ऑडिट के दौरान कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया।
	अन्य	
1	आयकर अधिनियम में निर्धारित दर पर TDS कटौति की जांच जाता है।	हमारे द्वारा TDS कटौति की जांच की गई जिसमें पाया गया की TDS आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार में निर्धारित दर पर काटा जाता है।
2	काटा गया TDS समय पर विभाग को जमा किये जाने की जांच।	TDS समय पर आयकर विभाग में जमा किया गया।
3	TDS के दर से भुगतान पर ब्याज कैषबुक में दर्ज किया गया अथवा नहीं।	लगू नहीं।
4	होर्डिंग्स पर विज्ञापन कर के लिए राजस्व में निर्धारित MPMAM के अनुसार खातों में दर्ज किया गया अथवा नहीं।	होर्डिंग्स पर विज्ञापन कर के लिए राजस्व में निर्धारित MPMAM नियमों के अनुसार खातों में दर्ज किया गया।
5	वहनों के लिए लोग बुक बनाए गए अथवा नहीं।	वहनों के लिए लोग बुक बनाए गए।
6	राजस्व के बकाया के लिए प्रावधान किए गए अथवा नहीं।	राजस्व के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं किये गए।
7	वर्ष के दौरान खरीदी गई स्थाई संपत्ति MPMAM में निर्धारित एफएआर नियमों में अपडेट की जाती है अथवा नहीं।	लेखापाल द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अचल संपत्ति की खरीदी और बिक्री की विवरण आय व्यय पत्रक में है। अधिकारियों को चाहिए की सारी संपत्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन करायी जाये।
8	वहन बीमा कैषबुक में ठीक से दर्ज की जाती है।	वाहन का बीमा कैषबुक में दर्ज नहीं है।
9	समी ओपनिंग बैलेंस सर्टिफिकेट ULB के साथ उपलब्ध होने की जांच।	ओपनिंग बैलेंस ULB सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध नहीं है।
10	भविष्य निधि में कर्मचारियों योगदान के लिए उचित रिकार्ड बनाने की जांच।	भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान के लिए उचित रिकार्ड बनाए जा रहे हैं।
11	वाउचर बिलों के समर्थन के साथ उपलब्ध है अथवा नहीं।	वाउचर बिलों के समर्थन के साथ उपलब्ध है।

As per our audit report enclosed and to be read along with the audit report and Notes to the account which are forming integral part of the financial statements.



For Priya Kaushik & co.
Chartered Accountants

CA. Prateek Kaushik
Pratner
M.No. 401728

Bhopal , 28.10.2020

HIG- 510, BDA COMPLEX, 7 NO. STOP, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL

Mb. No. 9981502022, 9893339515

Email Id:- kaushikprateekca@gmail.com

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

FOR THE PERIOD 01.04.2019 TO 31.03.2020

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Balance		INCOME TAX	578257
- BANK	47175532	AGNISASAN MARMMAT	691110
		ALAO EXP.	124206
PROPERTY TAX	228713	ANYA MARMMAT KARYA	66445
SAMEKIT KAR	526738	ASTHAI MASTER SHRAMIK	420880
EDUCATION CEES	13558	ANTESHTHI SAHAYATA	35000
NAGAR VIKAS UPKER	64947	BARDI KITS	18539
BAZAR FEES	422000	SALARY WAGES AND OTHER	17097641
TRUCK TRACTOR BAILGADI THEKE RECEIPT	393480	BIDHUT BILL	3058393
BUS STAND FEES	618000	CC ROAD	6394743
WATER TAX	2545359	CHALIT SAUCHALAY	1048278
YATRI TAX	993000	COMPUTER MARMMAT	447990
EXPORT TAX	247000	LOAN REPAYMENT CHUKAYA	339143
OTHERS NO OBJECTION RECEIPTS	1835	D. P. R.	361421
SHOP RENT	547708	DIESEL	716401
SHOP TRANSFER RECEIPTS	22000	GST TAX	471094
APPLICATION FEES	13126	JAL PRADAY SAMAGRI	8278614
VIKASH SHULK	62424	JAL PRADAY MARAMMAT	4313555
SPORTS SULK	21800	KACHCHE RASTE MARMMAT JCB	606402
JAN BHAGEDARI	10900	KANOONI PRABHAR	54500
SECURITY DEPOSIT	96410	KEETNASAK SAMAGRI	733304
SAMJHOUTA SULK	1490	LEKHA/AUDIT/BUDGET EXP.	70000
MUDRANK	503000	LABOUR TAX	110627
TENDER FORM FEES	142000	MOTER PUMP MARMMAT	328468
NEW NAL CONNECTION FEES	60720	MUNADI	2750
AMANAT FEES	76640	NIRVACHAN	140330
CC ROAD CUTTING FEES	3525	PARIVAHAN	439554
BICHHEED FEES	7500	PARSADO KA MANDEY	182000
OTHER RECEIPT	115101	PHOTO COPY	17355
GRANT OF TOLL CHATTIPURTI	19996318	PHOTO GRAFI	128624
GRANT FOR TOILET	12700	SAMAST BAHAN MARMMAT	3693557
GRANT FOR MULBHUT	3268000	STATIONARY	48285
STATE FINANCE COMM.	2632000	STREET LIGHT BILL	580329
14TH FAINANCE COMM	11890000	SVAGAT STKAR	180288
ROAD REPAIR & MAINTENANCE	1057000	SWACHHTA	734730
OTHER GRANT	24636000	TENT PANTAL SOUND	128210
INTEREST RECEIPT	198971	TELEPHONE	99974
		VEDHUT SAMAGRI	1637499
		VIDHAYAK NIDHI	125500
		VIGYAPAN	43520
		VIGYAPAN NIVID	173827
		AMANAT REFUND	901369
		OTHER EXPENSES	686181
		VAHAN REGISTRATION BEEMA	58600
		ADVANCE FOR KARMCHARI	322381
		By Closing Balance	
		- BANK	61915621

TOTAL

118605495

TOTAL

118605495

As per our audit report enclosed and to be read along with the audit report and Notes to the account which are forming integral part of the financial statements.



For Priya Kaushik & co.
Chartered Accountants

CA. Prateek Kaushik
Pratner
M.No. 401728

Bhopal, 28.10.2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर

Note :

1. आय व्यय पंजी को उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया है. जिसमे प्राप्त एवं भुगतान दोनों की प्रविष्टि करने में त्रुटि की गयी है. अतः निकाय को आय एवं व्यय पंजी को संशोधित करना चाहिए
2. We have compiled the financial data only and done the audit of the financial data. Our audit do not cover the forensic angle or the forensic audit and our audit is not objected to identify the fraud or embezzlement if any. Identification of the fraud or embezzlement is the duty of the management and management should establish that internal control which are sufficient to restrict occurrence of such events and in our opinion the internal control is weak and it should be made more strenghten.
3. The compilation of records and vouchers are the prime responsibility of the management / audtee and we have given our report based on the records and vouchers produced before us.
4. Reconciliation of the bank accounts :- Reconciliation of only two bank accounts are produced before us, i.e. for the bank accounts maintained with the State Bank of India the remaining bank accounts are subject to reconciliation and confirmation.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर

Bank details	Balance	
	01.04.2019	31.03.2020
SBI - 63004842242	43769992	47538587
SBI - 11253175277	1208546	364334
MBGB - 8057983279	886590	0
Jila Sahkari Bank - 632003017104	1186689	1485660
IDBI- 211		1666772
ICICI- 0092		10736554
Others	123714	123714
Total	47175532	61915621

Bank Reconialation Statement
Nagar Palika Parishad Harpalpur,

Bank Reco for A/c No. SBI 11253175277
01.04.2019 to 31.03.2020

BALANCE AS PER BOOKS	364334
Add :	
Chq Issued by us but not presented in Bank	0
Less :	
Bank Charges	-1441
Previous year Reconcialation difference.	-210291
Balance as per Bank	152602

Bank Reco for A/c No. SBI 63004842242
01.04.2019 to 31.03.2020

BALANCE AS PER BOOKS	47538587
Add :	
Previous year Reconcialation difference.	1508811
Less :	
Bank Charges	-59
Balance as per Bank	49047339.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर



REVISED ABSTRACT SHEET FOR REPORTING ON PARA NO. 8 (a) & (b) FOR FINANCIAL YEAR 2019-20

Name Of ULB :- Nagar Parishad Harpalpur Dist. Chhatarpur (M.P.)

Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co., Bhopal

Para 8 (a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, salary, operation & maintenance) With Respect To Revenue Receipts (Tax & Non Tax)

Sr.No.	PARTICULAR	AMOUNT
1	Revenue Expenditure	33623908
2	Revenue Receipts	2402729
	<u>Percentage</u>	4.19%

Para 8 (a) Percentage of Capital Expenditure With Total Expenditure

Sr.No.	PARTICULAR	AMOUNT
1	Capital Expenditure	23065966
2	Total Expenditure	56689874
	<u>Percentage</u>	40.68%

Whether all the temporary advance have been fully received or not

No Such Case Found

Whether Bank Reconciliation statements is being regularly prepared.

Bank Reconciliation statements is not being regularly prepared.



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर

Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name Of ULB :- Nagar Parishad Harpalpur Dist. Chhatarpur
(M.P.) Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co., Bhopal

Sr.No.	Parameters	Descriptions	Observation In Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue	There is reduction in Tax Collection.	Tax Amount is decreased from last year.	UC should prepare Quarter wise details for all taxes. Or a budgetary system should be established and comparison from budget should be made.
2	Audit of Expenditure	Nagar Parishad has not properly maintained scheme wise /project wise expenses	Utilization certificate and work register has not provided to us for audit.	The ULB should prepare scheme wise and expenses breakup also pending UC register and work register should be prepared
3	Audit of Book Keeping	Cashbook was maintained properly.	Harpalpur Municipality has not maintained cashbook on the basis of date of bank passbook entries.	
4	Audit of FDR	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
5	Audit of Tenders/Bids	Tenders allotted on quotation/limited tender basis are not made available before us for variation therefore we are unable to give our opinion on the same.	Unable to comment as the necessary data has not been provided to us.	Not Applicable
6	Audit of Grants & Loans	ULB has not prepared any utilization certificate, grant register was not properly updated.	Details are given in other report enclosed	Grant should be utilized proper way



मुखा नगर पालिका/अधिकारी
नगर पालिका, हरपालपुर

7	Incidence relating to diversion of funds from Capital Receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/project to another	Grant register was not update, and also no separate records were prepared from where diversion of funds can be ascertained.	Project wise scheme wise head wise records i.e. Scheme wise cash book are not prepared from where specific receipt & payments could be identified.	Proper book keeping for project wise scheme wise income & expenditure should be maintained so that bifurcation of capital and expenditure and also specific expenditure from grant fund can be ascertained.
---	--	---	--	---

Seal & Signature of Auditor



मुख्य नगर पालिका/अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर

Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name Of ULB :- Nagar Parishad Harpalpur Dist. Chhatarpur (M.P.)

Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co., Bhopal

Sr.No.	Parameters	Descriptions			Observation In Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue	Receipts in Rs.				
	राजस्व कर वसूली	Year 2018-19	Year 2019-20	% of Growth		
(i)	संपत्ति कर	265276	228713	-13.8%	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day
(ii)	समीकित कर	137379	526738	283.4%	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day
(iii)	नगरीय विकास उपकर	35234	64947	84.3%	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day
(iv)	शिक्षा उपकर	13234	13558	2.4%		
	कुल योग	451123	833956	84.9%		
	गैर राजस्व वसूली					
(i)	भवन / भूमि किराया	546469	1981188	262.5%	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	396782	2445359	516.3%	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day
(iii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार	0	0	0.0%		
(iv)	अन्य कर / शल्क	964857	2414915	150.3%	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day
	कुल योग	1908108	6841462	258.5%		
	महायोग	2359231	7675418	225.3%		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, हरपालपुर